



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 श्रावण 1936 (श०)
(सं० पटना 654) पटना, मंगलवार, 12 अगस्त 2014

पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

1 नवम्बर 2013

सं० निग/सारा-6 द०वि० (मुक०)-19/11-8505 (एस)—श्री जाहिद हुसैन, तत्कालीन कनीय अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त सहायक अभियंता को ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, पटना के पदस्थापन काल में बरती गयी अनियमितता के मामले में विभागीय कार्यवाही संचालन के उपरान्त अधिसूचना संख्या-15653 (एस) दिनांक 19.11.10 द्वारा निम्न दंड संसूचित किया गया था :-

(क) पेंशन को शून्य पर निर्धारित किया जाता है।

(ख) रुपये 9,71,716.19 (नौ लाख इकहतर हजार सात सौ सोलह रुपये उन्नीस पैसे) श्री हुसैन के सेवानिवृत्त लाभों से किया जायगा।

2. श्री हुसैन द्वारा उक्त दण्ड के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में CWJC No. 6434/2011 दायर किया गया जिसमें दिनांक 21.06.2013 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दण्ड अधिसूचना को निरस्त करते हुए सभी भुगतान की कार्रवाई दो माह के अन्दर करने का आदेश दिया गया। वस्तुस्थिति की गम्भीरता को देखते हुए इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय में दिनांक 21.06.13 के आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने हेतु संचिका विधि विभाग भेजी गई। विधि विभाग के द्वारा मामला अपील में जाने योग्य नहीं बताया गया।

3. वर्णित स्थिति में सी0डब्लू0जे0सी0सं0-6434/2011 में दिनांक 21.06.13 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में अधिसूचना संख्या-15653 (एस) दिनांक 19.11.10 को निरस्त करते हुए श्री हुसैन को देय सेवांत लाभों के भुगतान का निर्णय लिया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

(ह0) अस्पष्ट,

सरकार के उप-सचिव (निगरानी)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 654-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>